

# सर्वभौमिक सामुदायिक परीक्षण कार्यक्रम

जानकारी के लिए, कृपया यहां देखें  
[communitytest.gov.hk](http://communitytest.gov.hk)

24-घंटे हॉटलाइन  
3142 2368

## उद्देश्य

सार्वभौमिक सामुदायिक परीक्षण कार्यक्रम (UCTP) का उद्देश्य हांगकांग में COVID-19 संक्रमण की स्थिति को बेहतर ढंग से आंकना और शुरुआती पहचान, प्रारंभिक अलगाव और प्रारंभिक उपचार प्राप्त करने के लिए अलक्षणी रोगियों को खोजना है, और समुदाय में वायरस संचरण शृंखला में कटौती करना है। इसके साथ ही UCTP का उद्देश्य जनता के उन सदस्यों को भी देना है जो निःशुल्क वायरस परीक्षण प्राप्त करना चाहते हैं।

UCTP में भागीदारी स्वैच्छिक है। कुछ लोगों के अलावा जो परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, हांगकांग के बिना किसी लक्षण के सभी निवासी मुफ्त में एकबारगी COVID-19 का परीक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य विभाग को संक्रमित लोगों को यथाशीघ्र पहचान करने की इजाज़त देता है, विशेष रूप से अलक्षणी (रोगी) जो वायरस के वाहक हैं।

महामारी की तीसरी लहर के दौरान नए पुष्टि किए गए कई मामलों को अज्ञात संक्रमण स्रोतों के मामलों के साथ प्रतिवेदित किया गया है, और ऐसे मामलों में विभिन्न क्षेत्रों और वातावरण शामिल हैं। इससे पता चलता है कि समुदाय में छिपी या अलक्षणी वायरस संचरण शृंखला बनी हुई है, जो चिंताजनक है। जितनी जल्दी हो सके वायरस प्रसारण शृंखला को काटने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है, और हम हरेक जन इस कार्यक्रम में भाग लेकर भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा करने से, हम सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं, और हांगकांग के सामने आने वाली गंभीर आर्थिक और रोजगार चुनौतियों को कम कर सकते हैं।

सरकार को उम्मीद है कि हर पात्र नागरिक, अपने स्वयं के लिए और अपने प्यारे परिवार के सदस्यों और दोस्तों, सहकर्मियों, सभी समर्पित चिकित्साकर्मियों और समुदाय के बाकी सभी लोगों के लिए,

UCTP में भाग लेंगे।

### लक्ष्य

- एक वैध हांगकांग पहचान पत्र या जन्म प्रमाणपत्र (स्थायी और गैर-स्थायी निवासियों सहित) के धारक हांगकांग के सभी निवासी स्वैच्छिक आधार पर UCTP में भाग ले सकते हैं।
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गला या नाक का ऑपरेशन किए हुए लोग UCTP में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

### प्रकार

- एकबारगी मुफ्त में परीक्षण सेवा
- स्वैच्छिक भागीदारी

## मियाद

- 1 सितंबर से 7 दिनों के लिए। प्रगति के आधार पर सिर्फ अधिकतम सात दिनों के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

## स्थान

- हांगकांग में सभी 18 जिलों में सामुदायिक परीक्षण केंद्र (CTCs) स्थापित किए जाएंगे।
- CTCs सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे  
(सफाई और कीटाणुशोधन के लिए एक घंटे के ब्रेक के साथ)।
- सभी CTCs उपयुक्त संक्रमण निवारण उपायों को लागू करेंगे और प्रतिभागियों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए पर्याप्त प्रतीक्षा स्थान आरक्षित करेंगे।

## कैसे भाग लें?

- भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए, जनता के सदस्यों को ऑनलाइन नियुक्तियाँ अवश्य करनी चाहिए।
- नियुक्ति करते समय अपना नाम, हांगकांग पहचान पत्र नंबर और मोबाइल फोन नंबर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रतिभागी जाने के लिए एक सीटीसी, तारीख और समय भी चुन सकते हैं।

## नमूनाकरण विधि

- चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा संयुक्त नाक और गले से स्वाब द्वारा नमूने एकत्र किए जाएंगे।
- प्रतिभागियों को SMS द्वारा नकारात्मक परिणाम की सूचना दी जाएगी। जिनका सकारात्मक परीक्षण है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग से एक सार्वजनिक अस्पताल में अलगाव और उपचार की व्यवस्था करने के लिए कॉल आएगा ।

## गोपनीयता की सुरक्षा की निजता

•UCTP केवल COVID-19 वायरस के लिए परीक्षण करेगा। सभी परीक्षण हांगकांग में आयोजित किए जाएंगे। नमूने केवल हांगकांग में रखे जाएंगे और कार्यक्रम पूरा होने के एक महीने के भीतर नष्ट कर दिए जाएंगे।

• प्रतिभागियों के व्यक्तिगत आंकड़े को एन्क्रिप्ट करके सरकारी डेटा सेंटर के भीतर सर्वर में संग्रहीत किया जाएगा। आंकड़ा केवल रोग नियंत्रण के उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रासंगिक विभागों के लिए उपलब्ध होगा और व्यक्तिगत डेटा (गोपनीयता) अध्यादेश (कैप.486) के प्रावधानों के अनुसार संभाला जाएगा। सभी व्यक्तिगत आंकड़े और परीक्षण के परिणाम कार्यक्रम के पूरा होने के बाद एक महीने के भीतर नष्ट कर दिए जाएंगे।

(नमूना स्टेशन )